



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

18 ज्येष्ठ 1933 (श0)
(सं0 पटना 275) पटना, बुधवार, 8 जून 2011

नगर विकास एवं आवास विभाग

अधिसूचना

7 जून 2011

सं० 4 (न) निर्वा०-1/2009-3180—चूँकि राज्य सरकार द्वारा नगर पंचायत, तेघड़ा (बेगूसराय) का गठन करने का निर्णय लिया गया है।

और चूँकि वैधानिक प्रावधानों के अधीन उस नगरपालिका के लिये चुनाव कराना आवश्यक हो गया है;

अतः बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 (अधिनियम संख्या 11, 2007) की धारा-441 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य के राज्यपाल, राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार पटना की अनुशंसा पर एतद्वारा उपर्युक्त नगरपालिका के पार्षदों के निर्वाचन के लिए मतदान हेतु 10 जुलाई 2011 की तिथि नियत करते हैं तथा अपेक्षा करते हैं कि मतदातागण बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की उपबंधों के अनुसार पार्षदों को निर्वाचित करें।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
शशि शेखर शर्मा,
सरकार के प्रधान सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 275-571+100-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>